REET 2025
LEVEL-1&2
वंदन बैच
संस्कृत
शब्दरूप
Part -3
LIVE
24-01-2025 03:00 PM

शब्द विचार

❖ शब्द अनेक वर्णों के मेल से बनता है अर्थात् दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते है।

जैसे - संज्ञा, सर्वनाम आदि संस्कृत भाषा में लिंग तीन होते हैं

शब्दों को भी तीन भागों में बाँटा जा सकता है।

(1) पुंल्लिंग शब्द - राम, छात्र इत्यादि

(2) स्त्रीलिंग शब्द - रमा, नदी इत्यादि

(3) नपुंसकलिंग शब्द - जल, फल, पत्र आदि

स्वर अथवा व्यजंन के आधार पर शब्द दो प्रकार का होता है।

(1) अजन्त या स्वरान्त शब्द -

जिन शब्दों के अन्त में कोई स्वर होता हैं उन्हें अजन्त या स्वरान्त कहते हैं, यथा - राम, रमा, कवि, नदी, भानु, पितृ, गो इत्यादि।

(2) हलन्त या व्यंजनान्त शब्द -

जिन शब्दों के अन्त में कोई व्यंजन होता है, उसे हलन्त या व्यंजनान्त कहते हैं। यथा- राजन्, सरित्, आत्मन् इत्यादि।

लिंग व अन्तिम अक्षर की दृष्टि से शब्दों को निम्नलिखित छः वर्गों में रखा गया है।

अकारान्त इकारान्त उकारान्त

(1) अजन्त पुंल्लिंग - राम, मोहन आदि

अकारान्त

(2) अजन्त स्त्रीलिंग - रमा, लता आदि

आकारान्त

(3) अजन्त नपुंसकलिंग - जल, पत्र, पुस्तक आदि

(4) हलन्त पुंल्लिंग - राजन्, आत्मन्

(5) हलन्त स्त्रीलिंग - सरित्

(6) हलन्त नपुंसकलिंग - मनस्, पयस्

	एक.	द्वि.	बहु.		एक.	द्वि.
प्र.	पिता	पितरौ	पितरः		माता	मातरौ
द्वि.	पितरम्	पितरौ	पितॄन्		मातरम्	मातरौ
तृ.	पित्रा आ	पितृभ्याम्	पितृभिः		मात्रा	मातृभ्याम्
च.	पित्रे ए	पितृभ्याम्	पितृभ्यः		मात्रे	मातृभ्याम्
पं.	पितुः उः	पितृभ्याम्	पितृभ्यः		मातुः	मातृभ्याम्
ष.	पितुः उः	पित्रोः	पितॄणाम्		मातुः	मात्रोः
स.	पितरि इ	पित्रोः	पितृषु		मातरि	मात्रोः

4. ऋकारान्त पुंलिङ्ग

विभक्ति	पितृ	भ्रातृ	जामातृ	कर्तृ	हर्तृ
प्रथमा	पिता	भ्राता	जामाता	कर्ता	हर्ता
द्वितीया	पितरम्	भ्रातरम्	जामातरम्	कर्तारम्	हर्तारम्
तृतीया	पित्रा	भ्रात्रा	जामात्रा	कर्त्रा	हर्त्रा
चतुर्थी	पित्रे	भ्रात्रे	जामात्रे	कर्त्रे	हर्त्रे
पञ्चमी	पितुः	भ्रातुः	जामातुः	कर्तुः	हर्तुः
षष्ठी	पितुः	भ्रातुः	जामातुः	कर्तुः	हर्तुः
सप्तमी	पितरि	भ्रातरि	जामातरि	कर्तरि	हर्तरि

प्रथमा	पितरौ	भ्रातरौ	जामातरौ	कर्तारौ	हर्तारौ
द्वितीया	पितरौ	भ्रातरौ	जामातरौ	कर्तारौ	हर्तारौ
तृतीया	पितृभ्याम्	भ्रातृभ्याम्	जामातृभ्याम्	कर्तृभ्याम्	हर्तृभ्याम्
चतुर्थी	पितृभ्याम्	भ्रातृभ्याम्	जामातृभ्याम्	कर्तृभ्याम्	हर्तृभ्याम्
पञ्चमी	पितृभ्याम्	भ्रातृभ्याम्	जामातृभ्याम्	कर्तृभ्याम्	हर्तृभ्याम्
षष्ठी	पित्रोः	भ्रात्रोः	जामात्रोः	कर्त्रोः	हर्त्रोः
सप्तमी	पित्रोः	भ्रात्रोः	जामात्रोः	कर्त्रोः	हर्त्रोः
सम्बोधन	हे पितरौ !	हे भ्रातरौ !	हे जामातरौ !	हे कर्तारौ !	हे हर्तारौ !

प्रथमा	पितरः	भ्रातरः	जामातरः	कर्तारः	हर्तारः
द्वितीया	पितॄन्	भ्रातॄन्	जामातॄन्	कर्तॄन्	हर्तॄन्
तृतीया	पितृभिः	भ्रातृभिः	जामातृभिः	कर्तृभिः	हर्तृभिः
चतुर्थी	पितृभ्यः	भ्रातृभ्यः	जामातृभ्यः	कर्तृभ्यः	हर्तृभ्यः
पञ्चमी	पितृभ्यः	भ्रातृभ्यः	जामातृभ्यः	कर्तृभ्यः	हर्तृभ्यः
षष्ठी	पितॄणाम्	भ्रातॄणाम्	जामातॄणाम्	कर्तॄणाम्	हर्तॄणाम्
सप्तमी	पितृषु	भ्रातृषु	जामातृषु	कर्तृषु	हर्तृषु
सम्बोधन	हे पितरः !	हे भ्रातरः !	हे जामातरः !	हे कर्तारः !	हे हर्तारः !

आकारान्त एक.

एक.	छात्रा	वर्षा	सीमा	आ
लता	छात्रा	वर्षा	सीमा	आ
लताम्	छात्राम्	वर्षाम्	सीमाम्	आम्
लतया	छात्रया	वर्षया	सीमया	अया
लतायै	छात्रायै	वर्षायै	सीमायै	आयै
लतायाः	छात्रायाः	वर्षायाः	सीमायाः	आयाः
लतायाः	छात्रायाः	वर्षायाः	सीमायाः	आयाः
लतायाम्	छात्रायाम्	वर्षायाम्	सीमायाम्	याम्

5. आकारान्त स्त्रीलिङ्ग

प्रथमा	रमा	लता	सीता	राधा	बालिका
द्वितीया	रमा	लता	सीता	राधा	बालिका
तृतीया	रमाम्	लताम्	सीताम्	राधाम्	बालिकाम्
चतुर्थी	रमया	लतया	सीतया	राधया	बालिकया
पञ्चमी	रमायै	लतायै	सीतायै	राधायै	बालिकायै
षष्ठी	रमायाः	लतायाः	सीतायाः	राधायाः	बालिकायाः
सप्तमी	रमायाः	लतायाः	सीतायाः	राधायाः	बालिकायाः
सम्बोधन	हे रमे!	हे लते !	हे सीते!	हे राधे	हे बालिके!

आकारान्त (द्विवचन)

लते	बालिके
लते	बालिके
लताभ्याम्	बालिकाभ्याम्
लताभ्याम्	"
लताभ्याम्	"
लतयोः	बालिकयोः
लतयोः	"

प्रथमा	रमे	लते	सीते	राधे	बालिके
द्वितीया	रमे	लते	सीते	राधे	बालिके
तृतीया	रमाभ्याम्	लताभ्याम्	सीताभ्याम्	राधाभ्याम्	बालिकाभ्याम्
चतुर्थी	रमाभ्याम्	लताभ्याम्	सीताभ्याम्	राधाभ्याम्	बालिकाभ्याम्
पञ्चमी	रमाभ्याम्	लताभ्याम्	सीताभ्याम्	राधाभ्याम्	बालिकाभ्याम्
षष्ठी	रमयोः	लतयोः	सीतयोः	राधयोः	बालिकयोः
सप्तमी	रमयोः	लतयोः	सीतयोः	राधयोः	बालिकयोः
सम्बोधन	हे रमे!	हे लते !	हे सीते!	हे राधे !	हे बालिके!

आकारान्त (स्त्री.) बहु:

आ: आ: भि: भ्य: भ्य: आम् सु

लता:	सीता:
लता:	सीता:
लताभि:	सीताभि:
लताभ्य:	सीताभ्य:
लताभ्य:	सीताभ्य:
लतानाम्	सीतानाम्
लतासु	सीतासु

प्रथमा	रमाः	लताः	सीताः	राधाः	बालिकाः
द्वितीया	रमाः	लताः	सीताः	राधाः	बालिकाः
तृतीया	रमाभिः	लताभिः	सीताभिः	राधाभिः	बालिकाभिः
चतुर्थी	रमाभ्यः	लताभ्यः	सीताभ्यः	राधाभ्यः	बालिकाभ्यः
पञ्चमी	रमाभ्यः	लताभ्यः	सीताभ्यः	राधाभ्यः	बालिकाभ्यः
षष्ठी	रमाणाम्	लतानाम्	सीतानाम्	राधानाम्	बालिकानाम्
सप्तमी	रमासु	लतासु	सीतासु	राधासु	बालिकासु

इकारान्त स्त्रीलिङ्गः

	एकवचन	
प्र.	मति	रुचि
द्वि.	मतिम्	रुचिम्
तृ.	मत्या	रुच्या
च.	मत्यै / मतये	रुच्यै
प.	मत्याः / मतेः	रुच्याः
ष.	मत्याः / मतेः	रुच्याः
स.	मत्याम् / मतौ	रुच्याम्

6. इकारान्त स्त्रीलिङ्ग

विभक्ति	मति (बुद्धि)	रुचि	श्रुति	भूमि
प्रथमा	मतिः	रुचिः	श्रुतिः	भूमिः
द्वितीया	मतिम्	रुचिम्	श्रुतिम्	भूमिम्
तृतीया	मत्या	रुच्या	श्रुत्या	भूम्या
चतुर्थी	मत्यै/ मतये	रुच्यै/रुचये	श्रुत्यै/ श्रुतये	भूम्यै/ भूमये
पञ्चमी	मत्याः /मतेः	रुच्याः/रुचेः	श्रुत्याः/ श्रुतेः	भूम्याः/ भूमेः
षष्ठी	मत्याः /मतेः	रुच्याः/रुचेः	श्रुत्याः /श्रुतेः	भूम्याः/ भूमेः
सप्तमी	मत्याम् /मतौ	रुच्याम् / रुचौ	श्रुत्याम् / श्रुतौ	भूम्याम् / भूमौ

प्रथमा	मती	रुची	श्रुती	भूमी
द्वितीया	मती	रुची	श्रुती	भूमी
तृतीया	मतिभ्याम्	रुचिभ्याम्	श्रुतिभ्याम्	भूमिभ्याम्
चतुर्थी	मतिभ्याम्	रुचिभ्याम्	श्रुतिभ्याम्	भूमिभ्याम्
पञ्चमी	मतिभ्याम्	रुचिभ्याम्	श्रुतिभ्यामं्	भूमिभ्याम्
षष्ठी	मत्योः	रुच्योः	श्रुत्योः	भूम्योः
सप्तमी	मत्योः	रुच्योः	श्रुत्योः	भूम्योः
सम्बोधन	हे मती !	हे रुची !	हे श्रुती !	हे भूमी!

प्रथमा	मतयः	रुचयः	श्रुतयः	भूमयः
द्वितीया	मतीः	रुचीः	श्रुतीः	भूमीः
तृतीया	मतिभिः	रुचिभिः	श्रुतिभिः	भूमिभिः
चतुर्थी	मतिभ्यः	रुचिभ्यः	श्रुतिभ्यः	भूमिभ्यः
पञ्चमी	मतिभ्यः	रुचिभ्यः	श्रुतिभ्यः	भूमिभ्यः
षष्ठी	मतीनाम्	रुचीनाम्	श्रुतीनाम्	भूमीनाम्
सप्तमी	मतिषु	रुचिषु	श्रुतिषु	भूमिषु
सम्बोधन	हे मतयः !	हे रुचयः !	हे श्रुतयः !	हे भूमयः !

शब्द रूप याद करने के नियम

राम, हरि, पति, गुरु, पितृ, गच्छत्, आत्मन्, रमा, मति, नदी, धेनु वधू, स्त्री, फल, वारि, मधु, जगत्, अस्मद्, युस्मद्, सर्व, तत्, इदम्।

(1) नियम : राम्, हरि, गुरु, मति, धेनु, इन शब्दों के प्रथमा के एकवचन में विसर्ग लग जाता है।

जैसे- रामः, हरिः, गुरुः, धेनुः आदि।

(2) नियम : आकारान्त और ईकारान्त शब्द के प्रथमा के एकवचन में विसर्ग नहीं लगता है।

जैसे- रमा, नदी, जननी आदि।

लेकिन लक्ष्मी और श्री शब्द में प्रथमा के एकवचन में विसर्ग लगता है।

जैसे- लक्ष्मी:, श्री:

(3) नियम : द्वितीया विभक्ति के एकवचन में इन सभी शब्दों में 'म्' जुड़ता है

जैसे- बालकम्, रमाम्, हरिम्, नदीम्, कविम्, गुरुम्, धेनुम्, जननीम् आदि।

(4) द्वितीया विभक्ति के बहुवचन का नियम :

- अ, इ, उ, ऋ इन चारों पुल्लिंग शब्दों के द्वितीया के बहुवचन में अन्तिम अक्षर को दीर्घ करके न् हलन्त जोड़ते हैं।

जैसे- अ = आन्, इ = ईन्, उ = ऊ + न्, ऋ = ॠ + न्

राम = रामान्, हरि = हरीन् ऋषि, ऋषीन्

गुरु = गुरून्, भानु = भानून्, पितृ = पितॄन् आदि।

❖ आ, ई, इ, उ, ऋ स्त्रीलिंग शब्दों के द्वितीया के बहुवचन में दीर्घ करके विसर्ग लग जाता ह।

जैसे- रमा = रमाः, लता =लताः, मति = मतीः

धेनु = धेनूः, नदी = नदीः, मातृ = मातॄः आदि।

(5) नियम: इन सभी शब्दों के तृतीया विभक्ति द्विवचन में 'भ्याम् ' जुड़ जाता है

लेकिन राम शब्द में भ्याम् जुड़ने से पहले आ की मात्रा लग जाती है।

जैसे- राम + आ + भ्याम् = रामाभ्याम्, रमा + भ्याम् = रमाभ्याम्, हरि + भ्याम् = हरिभ्याम्, पितृ + भ्याम् = पितृभ्याम्, नदी + भ्याम् नदीभ्याम् आदि।

(6) नियम : तृतीया के बहुवचन में इन सभी शब्दों में 'भिः' जुड़ता है। लेकिन राम शब्द में 'भिः' न जुड़ करके 'ऐः ' जुड़ता है।

जैसे- रामैः, बालकैः, रमाभिः, हरिभिः, गुरुभिः, पितृभिः, धेनुभिः आदि।

(7) नियम : षष्ठी विभक्ति बहुवचन में 'नाम्' या 'णाम् ' जुड़ता है। जिस शब्द में ऋ, र्, ष् का उच्चारण हो तो षष्ठी के बहुवचन में 'णाम्' जुड़ता है, इसके अतिरिक्त शब्दों में 'नाम' जुड़ता है।

मूल शब्द के अन्तिम स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है।

जैसे - रामाणाम्, लतानाम्, रमाणाम्, बालकानाम्, हरीणाम्, पुत्रीणाम्, गुरूणाम्, भानूनाम् ।

(8) नियम : जिस शब्द के अन्त में आ की मात्रा हो तथा हलन्त लगा हुआ हो, इनके सप्तमी के बहुवचन में सु लगता है अन्य शब्दों में षु लगता है। लेकिन राम शब्द में षु से पहले ए की मात्रा लग जाती हैं।

राम + ए + षु = रामेषु, बालकेषु, छात्रासु, रमासु, भवत्- भवत्सु जगत्सु, मातृषु आदि ।

(9) नियम: प्रथमा एवं द्वितीया का द्विवचन एक समान होते हैं।

(10) नियम : तृतीया, चतुर्थी एवं पंचमी के द्विवचन एक समान होते हैं।

(11) नियम: षष्ठी, सप्तमी के द्विवचन एक समान होते हैं।

(12) नियम : चतुर्थी एवं पंचमी का बहुवचन एक समान होते हैं।

(13) नियम: प्रथमा का द्विवचन और बहुवचन एवं सम्बोधन का द्विवचन व बहुवचन एक समान होते हैं।